

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक 26.01.2023

SBI ATM को काटकर चोरी करने वाले तीन अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार-

थानाध्यक्ष छावनी दुर्गेश कुमार पांडेय मय पुलिस टीम व प्रभारी SOG टीम बस्ती रोहित उपाध्याय मय टीम की संयुक्त कार्यवाही में दिनांक-10.01.2023 को थाना कप्तानगंज क्षेत्रांतर्गत नकटीदेई बुजुर्ग में SBI ATM को गैस कटर से काटकर उसमें रखे रुपए करीब 20,37,000/- (बीस लाख सैंतीस हजार) की चोरी करने के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 11/2023 धारा 457, 380, 427 IPC की घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक-26.01.2023 को समय करीब 04:05 बजे अमौली मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान थानाध्यक्ष छावनी के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है जिसके जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त 01- मुनफैद खां पुत्र अब्दुल गफ्फूर खां (घायलास्था में) के दाहिने पैर में गोली लगी तथा 02- मुकीम पुत्र अब्दुल गफ्फूर खां 03- रुस्तम पुत्र इब्राहिम इन दोनो अभियुक्तो द्वारा सरेन्डर कर दिया गया। तीनो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा घायल अभियुक्त को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमजोत भेजा गया।

गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर उक्त 03 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना छावनी जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 19/2023 धारा 307, 401, 411, 420, 467, 468, 471, 504, 506 IPC व अभियुक्त 01- मुनफैद खां पुत्र अब्दुल खां (घायलावस्था में) के विरुद्ध मु0अ0सं0 20/2023 धारा 3/25,05/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 01- मुनफैद खां पुत्र अब्दुल गफ्फूर खां निवासी बैन्सी थाना नूह जनपद नूह राज्य हरियाणा।
- 02- मुकीम पुत्र अब्दुल गफ्फूर खां निवासी बैन्सी थाना नूह जनपद नूह राज्य हरियाणा।
- 03- रुस्तम पुत्र इब्राहिम निवासी धुनैला थाना भोड़सी जनपद गुड़गांव राज्य हरियाणा।

बरामदगी का विवरण-

- 01- ₹2,01,400/- (दो लाख एक हजार चार सौ रुपए)।
- 02- एक अदद तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।
- 03- स्विफ्ट वी एक्स आई कार (कुटरचित नंबर प्लेट लगा)।
- 04- 03 अदद मोबाइल (01 अददआईफोन-13, 01 अदद रेडमी व 01 अदद वीवो)।
- 05- एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर, एक अदद छोटा गैस सिलेंडर, पाइप 02 लेंथ, एक अदद कनवर्टर/ रेगुलेटर, एक अदद नाजिल बेल्ड कटर, एक अदद छीनी, एक अदद हथौड़ा, एक-एक अदद छोटा-बड़ा सब्बल(कुल 02), एक अदद काला पेंट स्प्रे।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10/01/2023 को संदीप मिश्रा पुत्र राम धीरज मिश्रा निवासी ग्राम जयचंदपुर थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) द्वारा थाना कप्तानगंज पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि मैं जनपद बस्ती में SBI ATM CMS के लोकल एलआर के पद पर कार्यरत हूँ थाना कप्तानगंज क्षेत्रांतर्गत नकटीदेई बुजुर्ग में SBI ATM लगा है जिसको अज्ञात चोरों द्वारा गैस कटर से काटकर उसमें रखे रुपए करीब 20,37,000/- (बीस लाख सैंतीस हजार) चोरी कर लिए इस तहरीर के आधार पर थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 11/2023 धारा 457, 380, 427 IPC पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही व अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था जिसके क्रम में दिनांक- 26/01/2023 को सुबह समय करीब 04:05 बजे थानाध्यक्ष छावनी दुर्गेश कुमार पांडेय मय पुलिस टीम व प्रभारी SOG टीम बस्ती रोहित उपाध्याय मय टीम की संयुक्त कार्यवाही में अमौली मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान 03 अभियुक्तों क्रमशः 01- मुनफैद खां पुत्र अब्दुल गफ्फूर खां (घायलावस्था में) 02- मुकीम पुत्र अब्दुल गफ्फूर खां 03- रुस्तम पुत्र इब्राहिम को गिरफ्तार कर घायल अभियुक्त को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमजोत भेजा गया।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभ्युक्त मुनफैद ने बताया कि साहब हम लोग योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न प्रदेशों में ATM मशीन काटकर उसमें से पैसा निकालकर चोरी करते हैं। हम लोगो का एक गैंग है। हमारी गैंग में हम तीन लोगों के अलावा 1.खालिद पुत्र फजलू उर्फ फारूख खान निवासी उटावड़ जिला पलवल राज्य हरियाणा, 2.रेहान पुत्र अज्ञात, 3.मुबारक उर्फ मुब्बा उर्फ लंगड़ा जो उटावड़ जिला पलवल राज्य हरियाणा का ही रहने वाला है। खालिद इनको लेकर आता है। मैं तथा हमारे साथी 1.खालिद, 2.रेहान, 3.मुबारक उर्फ मुब्बा उर्फ लंगड़ा दिनांक 09.01.2023 को सुबह हरियाणा से ATM मशीन काटकर पैसा चुराने के फिराक में चले। रास्ते में ATM मशीनो को देखते हुए तथा रैकी करते हुए फैजाबाद तक आ गये। परन्तु हर ATM मशीनो पर गार्ड व पुलिस की सतर्कता के कारण कहीं हम लोग वारदात को नहीं कर पाये थे। फिर फैजाबाद से लेकर सहजनवा गीड़ा तक ATM से पैसे चुराने के सम्बन्ध में रैकी किये लेकिन पुलिस की सक्रियता के कारण घटना कारित नहीं कर पाये। दिनांक 09.01.2023 को ही हम लोगो ने कप्तानगंज बाजार में सड़क के किनारे SBI ATM की रैकी की थी। सहजनवा से लौटने के बाद रात में अपनी कार में ही विभिन्न ढाबो पर जगह बदल बदलकर रुकते रहे। दिनांक 10.01.2023 की सुबह लगभग 05.30 बजे कप्तानगंज के SBI ATM के पास आये। काफी गहरा घना कोहरा था तथा अधेरा व रास्ता सूनसान था उसका लाभ उठाकर ATM मशीन को गैसकटर से काटकर उसमें से बीस लाख से उपर रुपया चुरा लिये थे। तथा ATM में मौजूद कागज व नीचे गिरी पर्चियों को इकट्ठा कर उसको जला दिये। उसके बाद हम लोग पैसा कार से लेकर फरार हो गये। वह कार स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग की थी जिस पर हम लोग फर्जी नम्बर प्लेट RJ14 CT 4600 लगाये थे। वह कार मुबारक उर्फ मुब्बा की थी। असली नम्बर हमको पता नहीं है। हमको उक्त चोरी के रुपयों में से हिस्से में 4,50,000(चार लाख पचास हजार रुपये) मिला था। शेष रुपया उन्ही तीनों ने आपस में बाट लिया था। यह जो पैसा हमारे पास से मिला है। यह उसी चुराये हुए पैसे का है। बाकी पैसे खर्च हो गये थे कड़ाई से और घटनाओ के सम्बन्ध में पूछने पर बताये कि इससे पहले मैं, मुबारक, रेहान और खालिद नवम्बर माह में बाराबंकी शहर में PNB का एटीएम काटने का प्रयास किया था लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण हम लोग भाग गये थे। मैं दिनांक 22.01.2023 को एक सगाई के कार्यक्रम में बाराबंकी आया था यहाँ पर से मैं फैजाबाद आ गया तथा यहीं पर मैं अपने भाई मुकीम व रुस्तम को बुलाया हम लोग की गाड़ी में हमेशा गैस कटर मशीन रखी रहती है। 23.01.2023 से ही हम लोग घूम कर पुनः ATM मशीन काटकर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन पुलिस की सक्रियता से सफल नहीं हो पा रहे थे आज पकड़े ही गये।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय थाना छावनी जनपद बस्ती।
2. श्री रोहित कुमार उपाध्याय SOG प्रभारी, जनपद बस्ती।

3. उ0नि0 श्री विरेन्द्र यादव थाना छावनी जनपद बस्ती।
4. हे0का0 अनन्त यादव SOG टीम, जनपद बस्ती।
5. हे0का0 विजय यादव, का0 शिवम सिंह, का0 संदीप यादव, का0 सुनील चौहान थाना छावनी जनपद बस्ती।
6. का0 करमचन्द, का0 अभिषेक सिंह, SOG टीम, का0 साजिद जमाल, का0 गजेन्द्र प्रताप सिंह जनपद।



vivo T1 Pro 5G
Jan 26, 2023, 13:23



vivo T1 Pro 5G
Jan 26, 2023, 13:23